



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART. II—Section 3—Sub-section (I)

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 1983/माघ 5, 1904

No. 28]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 1983/MAGHA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(उत्तर क्षेत्रीय परिषद सचिवालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1983

सां०का०सि० 38(अ).—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परमत्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर क्षेत्रीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय) में उप-सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

- सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम उत्तर क्षेत्रीय परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय उप-सचिव भर्ती नियम, 1983 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वर्गीकरण और चेतनमान --पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका चेतनमान वह होगा जो संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि --उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

1. निरर्हताएं --वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के सम्प्रदायकार की लागू स्थीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति --जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध की किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:--इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निराल गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	अथवा गैर अथवा पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	क्या के०सी० से (पेन्शन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ प्राप्त है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अर्जित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
-----------	--------------	----------	---------	------------------	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
उपसचिव	1* (1982) *कार्य- भार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	रु० 1200 50-1600	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के परीक्षा की अव- भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्था- यदि कोई विभागीय पदोन्नति पर स्थिति या जिनमें उम्मीदवारों के लिए निष्पत्ति आय तथा योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी

परीक्षा की अव- भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्था- यदि कोई विभागीय पदोन्नति पर स्थिति या जिनमें उम्मीदवारों के लिए निष्पत्ति आय तथा योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठ वैतनमान पद) अथवा केन्द्रीय सेवा समूह के (वरिष्ठ वैतनमान पद) अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के अधिकारियों में से। टिप्पणी—यदि इस पद पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा वा ग्रेड-1 अधिकारी नियुक्त किया जाय तो उसे केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सम्मिलित समझा जायेगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले छुट किसी अन्य काष्ठ-बांध पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारण-तया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होता	इस पद पर नियुक्ति के लिए अयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं० 25/19/82-जेड सी०एस०]

पी० एन० नारायणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Northern Zonal Council Secretariat)

NOTIFICATION

New Delhi, 20th January, 1983

G.S.R. 38(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Secretary in the Northern Zonal Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Northern Zonal Council Secretariat (Ministry of Home Affairs) (Deputy Secretary) Recruitment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. The method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification. No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other special provisions provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment rules for the post of Deputy Secretary in the Northern Zonal Council Secretariat, Ministry of Home Affairs

SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy Secretary	1* (1982) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1200-50-1600	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not Applicable	Not Applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation Officers of the Indian Administrative Service (Senior Scale); or Central Service Group 'A' (Senior Scale); or Grade I Officers of the Central Secretariat Service. <i>Note</i> : The post, if held by an officer of Grade I of the Central Secretariat Service, will be treated as included in the Central Secretariat Service. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while making selection for appointment to the post.

[No. 25/19/82-ZCS]

P.N. NARAYANAN, Jt. Secy.